

## वन उत्पादकता संस्थान, राँची

पुरुलिया के कृषको की जीविकोपार्जन बढाने के लिए तीन दिवसीय  
( 29.7.15 से 31.7.15) “किसान एक्स्पोजर विजिट” का आयोजन

वन उत्पादकता संस्थान, राँची एव दि एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, टेरी( TERI) के तत्वाधान में पुरुलिया जनपद के कृषको को उनके जीविकोपार्जन बढाने के लिए तीन दिवसीय “किसान एक्स्पोजर विजिट” का आयोजन वन उत्पादकता संस्थान, राँची के सहयोग से दिनांक 29 - 31 जुलाई तक किया गया। इस विजिट को कोल इंडिया लिमिटेड, कलकता ने किसानो के जीविकोपार्जन सामाजिक उत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की। डा0 सैय्यद आरिफ अली, मुख्य प्ररियोयना अन्वेषक, दि एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली इस कार्यक्रम के संयोजक थे। डा० शरद तिवारी वैज्ञानिक, 'इ', प्रभागाध्यक्ष, कृषि-वानिकी एवं विस्तार प्रभाग वन उत्पादकता संस्थान, राँची ने कार्यक्रम की रूपरेखा एव क्रियान्वयन किया। इस कार्यक्रम में नेतुरिया ब्लाक, पुरुलिया जनपद , प0 बंगाल के 50 कृषको ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया। किसान एक्स्पोजर विजिट का उद्घाटन वन उत्पादकता संस्थान, राँची के डा० शमीम अख्तर अंसारी ने किया।

तीन दिनों तक चले इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने झारखंड के खूंटी जिले में फलेमेंजिया सेमियालता पर लाख लगे खेतों का भ्रमण किया, तथा लाख लगाने से लेकर कीट संरक्षण एव लाख कटाई की विधि की जानकारी ली। तजना शैलैक कारखाना में ग्रामीणों ने लाख से बने उत्पाद एव चपड़े बनाने की विधि का भी अवलोकन किया। रामकृष्ण मिशन आश्रम में भ्रमण के दौरान किसानों ने मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, मतस्य पालन, तथा धान की खेती के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। विरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची में इन्हें कृषि-वानिकी के बारे में विस्तार से बताया गया।

कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रतिभागियों को डा० शमीम अख्तर अंसारी, निदेशक, वन उत्पादकता संस्थान, राँची, डा० शरद तिवारी वैज्ञानिक, 'इ', प्रभागाध्यक्ष, कृषि-वानिकी एवं विस्तार प्रभाग, डा0 संजय सिंह, वैज्ञानिक, 'इ', वन कार्यकी एव आण्विक जीव विज्ञान प्रभाग तथा सैय्यद आरिफ अली, मुख्य प्ररियोयना अन्वेषक, दि एनर्जी रिसोर्सेज

इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली ने प्रमाण पत्र का वितरण किया। श्रीमती आर0 एस0 कुजूर वैज्ञानिक-सी0, श्री एस0 एन0 वैद्य, श्री एस0 एन0 मिश्रा तथा श्री बसंत कुमार का तीन दिवसीय “ किसान एक्सपोजर विजिट” कार्यक्रम संचालन में उल्लेखनीय योगदान रहा । समारोह का धन्यवाद ज्ञापन टेरी(TERI) के श्री सुमित कुमार ने किया।





